



भारतीय विद्यालय डारसेट

हिंदी कार्यपत्रिका -7

रहीम के पद - प्रश्नोत्तर

तैयार किया गया : श्रीमती बीना स्टिफन

दिनांक : _____ छात्र /छात्रा का नाम : _____

कक्षा : IX "ब"

1.	रहीम ने सागर जल की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है-?	
3.	रहीम ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसका जल खारा होता है। यह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता । उसकी तुलना में पंक का जल धन्य होता है क्योंकि उसे पीकर कीट-पतंगे अपनी प्यास बुझा लेते हैं ।	
2.	अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा ?	
3.	अवध नरेश अर्थात् श्रीराम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें माता-पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चोदह वर्षों तक वनवास भोगना था । उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने का अवसर मिला ।	
3.	'नट' किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है ?	
3.	नट(acrobat/rope walk) कुंडली(summer sault) मारने की कला में सिद्ध(perfect) होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है । वह कुंडली में सिमट जाता है और छलाँग(jump) मारकर रस्सी के ऊपर चढ़ जाता है ।	
4.	'मोती, मानुष, चून' के संदर्भ में पानी के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए ।	
3.	'मोती' के संदर्भ में पानी ही उसमें चमक लाता है । इसी चमक से वह कीमती बनता है । 'मानुष' के संदर्भ में 'पानी' इज्जत, मान-सम्मान का प्रतीक बनकर आता है । इसी से मनुष्य का समाज में स्थान तय होता है । 'चून'(wheat flour/आटा) के संदर्भ में पानी ही उसे गूँधने(knead) के योग्य बनाता है और तभी इससे खाना पकता है ।	
5.	हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने	

	पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है ?	
उ.	हमें अपना दुख दूसरों पर इसलिए नहीं प्रकट करना चाहिए क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है । कोई हमारा दुख बाँटता नहीं अपितु लोग हमारे दुख को सुनकर हमारा मजाक उड़ाते हैं ।	